



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 ज्येष्ठ 1931 (श0)
(सं0 पटना 259) पटना, बृहस्पतिवार, 11 जून 2009

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

4 जून 2009

सं0 1949—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-3 सह पठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का प्रारूप, जिसे वह निर्गत करना चाहते हैं, उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाय।

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम के धारा-5 के अधीन विचार किया जायेगा।

प्रारूप आदेश

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-3 की उपधारा (1) (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर के निम्नांकित ग्राम की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करना आवश्यक है:-

1. (क) **ग्रामों के नाम एवं थाना नं0**

ग्राम का नाम	थाना सं0
1. बख्तियारपुर	64
(ख) चौहद्दी	
उत्तर	असरफचक गांव
दक्षिण	फेनसाहा गांव
पूरब	पहाड़पुर गांव
पश्चिम	मधुबन गांव

इस क्षेत्र को नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
प्रेमचन्द चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

4 जून 2009

सं० 1950—अधिसूचना सं० 1949 दिनांक 04 जून 2009 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
प्रेमचन्द चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 4th June 2009

No. 1950—In exercise of powers conferred by section 3 read with section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar desires to publish the following draft order, which is published for the information of those who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft would be considered within a month from the publication of this notification.

Objections/Suggestions received through the concerned District Magistrates/Divisional Commissioner during the draft publication will be considered under section-5 of the said Act.

Draft Order

In Exercise of powers conferred by sub section (1) (c) of Section-3 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar declares that for the purpose of the said Act, it is necessary to make an administrative provision and to enforce the provisions of the said Act in the following areas falling under Simari Bakhtiyarpur village in the District of Saharsa whose boundary are noted below:-

1 (a) Name of villages and Thana Nos.

	<u>Name of Village</u>	<u>Thana No.</u>
	1. Bakhtiyarpur	64
(b) Boundary—		
	North- Ashrafchak Village	
	South- Phensaha Village	
	East- Paharpur Village	
	West- Modhuban Village	

This area will be called Nagar Panchayat, Simari Bakhtiyarpur

2. This notification shall come to force at once.

By order of the Governor of Bihar,
PREMCHAND CHAUDHARY,
Joint Secretary to Government

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 259-571+200-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>